



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.01.2023

थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफ़र अंतर्जनपदीय शातिर चोर राहुल चौरसिया व रजत चौहान गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न-2 मंदिरों से चोरी किये गये 01 अदद मुकुट, 19 अदद पीतल के घंटे, 600/-रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण मे थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0003/2023 धारा 380/411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.राहुल चौरसिया पुत्र संतोष चौरसिया निवासी ढेलवरिया चौकाघाट पानी टंकी थाना जैतपुरा वाराणसी 2.रजत चौहान पुत्र चुन्नू चौहान निवासी सुल्तानपुर दुर्गा मंदिर के पास थाना रामनगर वाराणसी को सिहुलियाँ थाना चोलापुर से आज दिनांक-04.01.2023 को समय 12.33 बजे चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमलोग विभिन्न मन्दिरों से मुकुट व घंटों की चोरी करते है यह मुकुट भी चोरी का है और हमारे पास चोरी के कुल दो मुकुट व 19 घंटे थे जिसमे से एक मुकुट व 03 घंटे बन्तरी दानगंज से व एक मुकुट व 16 घंटे रजनहिया स्थित बह्म बाबा मन्दिर से चुराये है। बन्तरी दानगंज से चुराये गये एक मुकुट को हमने 1100 रुपये मे बेच दिया था जिसमे से 500 रुपये खाने पीने मे खर्च हो गये व 600/- रुपये जो है यह वही शेष पैसे है।

घटना का विवरण-दिनांक 03.01.2022 को वादी मुकदमा श्री आशीष नारायण चतुर्वेदी पुत्र डा0 सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी निवासी बन्तरी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी ने दिनांक 29.12.2022 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा बन्तरी गांव मे माँ भगवती माता मन्दिर से मुकुट चोरी हो जाने के संबंध मे लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर पर मु0अ0सं0 003/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.राहुल चौरसिया पुत्र संतोष चौरसिया निवासी ढेलवरिया चौकाघाट पानी टंकी थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।
- 2.रजत चौहान पुत्र चुन्नू चौहान निवासी सुल्तानपुर दुर्गा मंदिर के पास थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

19 अदद घंटा पीतल धातु, एक अदद मुकुट सफेद धातु, एक अदद आरी, एक अदद छोटा वेट मशीन, एक कटी हुयी जंजीर लोहे की व कटा हुआ ताला, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे आरटीआर 160 सीसी व 600/-रु नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 अरुण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी दानगंज थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 2.उ0नि0 विपिन कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी चौकी चन्दापुर थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 3.का0 आशुतोष सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 4.का0 देवी प्रसाद थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 5.का0 नवजीत सरोज थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

